




पावर फाइनेंस
कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एक नवरत्न पीएसयू



≡ कार्य-निष्पादन विशेषताएं

31 मार्च 2022 को समाप्त
तिमाही/ वित्तीय वर्ष



विषय – सूची

क पीएफसी – एक नजर

..

ख एकल कार्य- निष्पादन

1. विशेषताएं
2. अर्जन संबंधी अपडेट
3. परिसंपत्ति गुणवत्ता
4. प्रचालन कार्य-निष्पादन
5. शेयरधारकों का दृष्टिकोण

ग समेकित कार्य- निष्पादन

.

1. विशेषताएं



क. पीएफसी - एक नजर

≡ विद्युत क्षेत्र में अग्रणी वित्तपोषक



भारत सरकार द्वारा
अधिकांश स्वामित्व



विद्युत क्षेत्र में सरकार
के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय
पार्टनर



'एएए' की सबसे बड़ी
दीर्घकालिक घरेलू रेटिंग



#फोर्ब्स ग्लोबल'2021
के अनुसार संपत्ति के
मामले में दुनिया में
365


FORTUNE

#फॉर्च्यून 500
भारत'2021 में 29
स्थान

→ 12 अक्टूबर 2021 को सरकार द्वारा प्रदत्त
सीपीएसई के लिए "महारत्न" का सर्वोच्च दर्जा

→ सभी सीपीएसई में सबसे बड़ा समेकित बैलेंस शीट

≡ पीएफसी समूह संगठक





ख. एकल कार्य-निष्पादन




एकल कार्य-निष्पादन



1.

विशेषताएं

≡ वि.व'22 परिप्रेक्ष्य में



≡ स्थिति अद्यतन - पुनर्ोत्थान वितरण क्षेत्र योजना

उद्देश्य

2024-25 तक एटी एंड सी घाटे को 12-15% तक कम

2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतराल को शून्य तक कम

1

वर्तमान स्थिति

राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे राज्य
मॉनिटरिंग समिति द्वारा 13 राज्यों में 28 डिस्कॉम के लिए स्वीकृत परियोजनाएं - पीएफसी¹ और आरईसी में से प्रत्येक में 14 डिस्कॉम

2

प्रमुख विशेषताएँ

3,03,758 करोड़ रुपए का परिव्यय ~ सरकारी अनुदान रु.97,631 करोड़।
प्रत्येक राज्य के लिए अनुकूलित कार्य योजना।
पीएफसी और आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया।

3

व्यवसाय के अवसर

मॉनिटरिंग समिति द्वारा स्वीकृत 14 डिस्कॉम में पीएफसी के लिए संभावित प्रतिपक्ष ऋण अवसर

4

पुनर्ोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

¹आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में चौदह डिस्कॉम्स



एकल कार्य-निष्पादन



2.

अर्जन संबंधी अपडेट



राजस्व एवं वृद्धि

(Rs.'crore)

विवरण

ब्याजगत आय

ति4 विव 22

ति4 विव 21

विव 22

विव 21

8,938

8,876

36,701

36,146

ब्याजगत व्यय

5,572

5,804

22,671

23,194

निवल ब्याज आय

3,366

3,072

14,030

12,951

कर पश्चात लाभ

2,609

2,327

10,022

8,444

कुल संचयी आय

2,496

2,373

10,203

8,534

(Y/E- March)

Some figures may have been regrouped / reclassified for analysis purpose. Therefore, they may not reconcile with the reported figures.

मुख्य अनुपात



(Ratios in %)

विवरण

अर्जित परिसंपत्तियों पर लाभ

Q4 FY 22

Q4 FY 21

FY 22

FY 21

9.90

10.28

10.22

10.58

निधियों की लागत

7.05

7.25

7.30

7.48

अर्जित परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड

2.85

3.03

2.92

3.10

अर्जित परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन

3.55

3.30

3.62

3.54

सीआरएआर

23.48

18.83

23.48

18.83

नेट वर्थ
(शेयर पूंजी + सभी रिजर्व
)

Rs.59,350 cr.

Rs.52,393 cr.

Rs. 59,350 cr.

Rs. 52,393 cr.

(Y/E- March)

Ratios are annualised & are based on daily average and rounded off.



एकल कार्य-निष्पादन



3.

परिसंपत्ति गुणवत्ता




परिसंपत्ति गुणवत्ता स्नैपशॉट




31.03.2022 तक 3,73,135 करोड़ रुपए ऋण बहि


पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम निवल एनपीए




सरकारी क्षेत्र



निजी क्षेत्र



कार्य-निष्पादन
परिसंपत्ति



Power Finance Corporation

पर्याप्त प्रावधान
स्तर के
परिणामस्वरूप
बैलेंस शीट में
उछाल

≡ प्रावधान स्नैपशॉट - 31.03.2022



(Rs.'crore)



31.03.2022 के अनुसार
प्रावधान स्थिति

चरण-III परिसंपत्तियां (णनपीए)
के विरुद्ध 69% प्रावधान

	चरण I एवं II	चरण III	STAGE III as % of Gross Loan Assets	कुल
बकाया ऋण परिसंपत्तियां				
- सरकारी क्षेत्र	3,14,004	-	-	3,14,004
- निजी क्षेत्र	38,215	20,915	-	59,130
कुल बकाया राशि	3,52,219	20,915	5.61%	3,73,135
कुल प्रावधान राशि	3,004	14,344	-	17,349
निवल परिसंपत्तियां	3,49,215	6,571	1.76%	3,55,786

Note - Provision has been made in respect of all loans assets as per Expected Credit Loss (ECL) methodology under Ind As.

≡ समाधान स्थिति

चरण III परिसंपत्तियां
(1/5)

सक्रिय समाधान प्रयासों के परिणामस्वरूप 5 वर्षों में सबसे कम शुद्ध एनपीए स्तर प्राप्त हुआ



परिसंपत्तियों का समाधान

वित्तीय वर्ष 22 में 2,787 करोड़ रु. स्ट्रेस्ड एसेट का समाधान - एस्सार पावर एमपी, आरएस इंडिया विंड एनर्जी, जीवीके रतले, एस्टनफील्ड सोलर और कृष्णा गोदावरी

वित्त वर्ष 22 में निवल एनपीए घटकर 1.76% हो गया, जो वित्त वर्ष 21 में 2.09% था



अपेक्षित समाधान

एनसीएलटी के तहत 2 परियोजनाएं संकल्प के अग्रिम चरण हैं- रु. 2,263 करोड़ दक्षिण पूर्व यू.पी. का ऋण पावर ट्रांसमिशन कंपनी- रु. 764 करोड़ झाबुआ पावर लोन

पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध



≡ समाधान स्नैपशॉट

चरण III परिसंपत्ति(2/5)

चरण III में 20,915
करोड़ रुपये की ऋण
संपत्ति की समाधान
स्थिति



एनसीएलटी के
अंतर्गत



एनसीएलटी में रु.15,338 करोड़

14 परियोजनाएं

71% प्रावधान



एनसीएलटी के
बाहर



एनसीएलटी के बाहर 5,578 करोड़
रुपये के प्रस्ताव पर विचार किया जा
रहा है

9 परियोजनाएं

62% प्रावधान

≡ समाधान अद्यतन

चरण III परिसंपत्तियां (3/5)

एनसीएलटी के माध्यम से हल की जा रही प्रमुख परियोजनाएं

ऋणकर्ता का नाम

केएसके महानदी पावर

लेंको अमरकंटक

साउथ ईस्ट यू.पी. पावर
ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड.

इंड भारत एनर्जी उत्कल
लिमिटेड

ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्रा.
लिमिटेड

31.03.022 तक बकाया राशि
(करोड़ रुपए)

3,300

2,376

2,263

1,368

1,159

क्षमता (मेगावाट में)

3,600

1,920

N/A

700

1,320

सीओडी स्थिति

3 यूनिट शुरू किए गए
(1,800 MW)

2 यूनिट शुरू किए गए
(600 MW)

चरण 1 शुरू

शुरू नहीं किया गया

शुरू नहीं किया गया

≡ समाधान स्थिति

चरण III परिसंपत्तियां (4/5)

एनसीएलटी के माध्यम से हल की जा रही प्रमुख परियोजनाएं

ऋणकर्ता का नाम

श्री माहेश्वर हाइडल परियोजना

इंडिया पावर कॉर्पोरेशन (हल्दिया)

31.03.022 तक बकाया राशि
(करोड़ रुपये)

1,611

959

क्षमता (मेगावाट में)

400

450

सीओडी स्थिति

शुरू नहीं हुई

2 यूनिट शुरू किए गए
(300 MW)

≡ समाधान स्थिति

चरण III परिसंपत्तियां (5/5)

एनसीएलटी के बाहर हल की जा रही प्रमुख परियोजनाएं

ऋणकर्ता का नाम

सिन्नार थर्मल पावर लिमिटेड

टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

शिगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

डांस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

31.03.022 तक बकाया राशि
(करोड़ रुपये)

3,001

1,139

522

413

क्षमता (मेगावाट में)

1,350

600

97

96

सीओडी स्थिति

Commissioned

Commissioned

Commissioned

Commissioned



एकल कार्य-निष्पादन




4.

प्रचालन कार्य-निष्पादन



≡ ऋण परिसंपत्ति – संघटक

	(Rs./crore)	
	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
सकल ऋण परिसंपत्तियां	3,73,135	3,70,771
योजना वार		
उत्पादन	2,12,212	2,27,052
- परंपरागत उत्पादन	1,75,434	1,89,578
- नवीकरणीय ऊर्जा	36,777	37,474
• नवीकरणीय ऊर्जा – बड़ी जल विद्युत परियोजना (>25 मेगावाट)	16,610	16,734
• नवीकरणीय ऊर्जा अन्य बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं	20,167	20,741
ट्रांसमिशन	30,500	29,345
संवितरण	1,28,007	1,12,299
अन्य	2,416	2,076
क्षेत्र-वार		
सरकारी क्षेत्र	3,14,005	3,11,387
निजी क्षेत्र	59,130	59,384




≡ संवितरण घटक

(Rs.'crore)

	Q4 FY 22		Q4 FY 21		FY 22		FY 21	
	Amt	%	Amt	%	Amt	%	Amt	%
संवितरण	16,651	100%	28,357	100%	51,242	100%	88,301	100%
योजना वार								
उत्पादन	5,679	34%	8,193	29%	18,196	36%	30,722	35%
ट्रांसमिशन	2,126	13%	1,351	5%	4,636	9%	5,495	6%
वितरण	8,717	52%	18,784	66%	27,897	54%	51,903	59%
अन्य	129	1%	29	0.1%	512	1%	182	0.2%
क्षेत्र वार								
सरकारी क्षेत्र	14,145	85%	25,591	90%	42,295	83%	79,051	90%
निजी क्षेत्र	2,506	15%	2,766	10%	8,947	17%	9,251	10%

≡ Borrowing Snapshot

Leveraged Low Interest Rate Regime through Long Term Raising



Raised Rs.35,944 cr. in FY 22

@5.27% Weighted Average Marginal Cost

For 6.34 yrs Weighted Average Maturity

≡ 31.03.2022 तक देयताएं मिश्रण

92% exchange risk
hedged for FCL upto
5 years residual
maturity



1. Like CC/OD/line of credit/LAFD.



एकल कार्य-निष्पादन




5.

शेयरधारक दृष्टिकोण



≡ 31.03.2022 तक शेयरधारक दृष्टिकोण



इक्विटी अनुपात संभावित वृद्धि को इंगित करता है

ईपीएस
(वार्षिकीकृत)

37.96 रुपए

बही मूल्य प्रति
शेयर

224.80 रुपए

अर्जन अनुपात पर
मूल्य

2.96

बही मूल्य अनुपात
पर मूल्य

0.50



ग. समेकित कार्य-निष्पादन



समेकित कार्य-निष्पादन



1.

विशेषताएं

समेकित स्नैपशॉट

कर पश्चात लाभ



→ Rs.18,768 cr. in FY'22 vs. Rs.15,716 cr. in FY'21

कुल आय



→ Rs.76,345 cr. in FY'22 vs. Rs.71,701 cr. in FY'21

निवल ब्याज आय



→ Rs.30,178 cr. in FY'22 vs. Rs.26,162 cr. in FY'21



ऋण परिसंपत्तियां

→ Rs.7,58,496 cr. in FY'22 vs. Rs.7,45,189 cr. in FY'21



निवल एनपीए

→ 1.60% in FY'22 vs 1.91% in FY'21

मुख्य समेकित वित्तीय



(Rs.'crore)

विवरण

ब्याज आय

ति4 विव 22

ति4 विव 21

विव 22

विव 21

18,261

17,728

74,887

70,845

ब्याज व्यय

10,926

11,244

44,709

44,684

निवल ब्याज आय

7,335

6,484

30,178

26,162

कर पश्चात लाभ

4,296

3,906

18,768

15,716

कुल समेकित आय

3,919

3,955

18,890

16,264

(Y/E- March)

Some figures may have been regrouped / reclassified for analysis purpose. Therefore, they may not reconcile with the reported figures.



धन्यवाद

पीएफसी के वित्तीय कार्य-निष्पादन प्रश्नों पर आप पीएफसी की निवेशक संबंध टीम से investorrelations@pfcindia.com पर संपर्क कर सकते हैं



संपर्क जानकारी निवेशकों के लिए

**Investment in
54 EC Capital
Gain Bonds**



54ECinvestorcell@pfcindia.com

**For all
Bond Queries**



bondsinvestorcell@pfcindia.com

≡ Disclaimer



- ▷ The presentation is prepared based on consolidated/stand-alone audited financial statements of PFC for financial year ended 31.03.2022.
- ▷ There is a possibility of Ind AS financial results and the additional disclosures to be updated, modified or amended because of adjustments which may be required to be made on account of introduction of new standards or its interpretation, receipt of guidelines or circulars from regulatory bodies and/or Reserve Bank of India
- ▷ This presentation may contain statements which reflect Management's current views and estimates and could be construed as forward looking statements. The future involves uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from the current views being expressed. Potential uncertainties and risks include factors such as general economic conditions, currency fluctuations, competitive product and pricing pressures, industrial relations and regulatory developments.
- ▷ We do not update forward-looking statements retrospectively. Such statements are valid on the date of publication and can be superseded.
- ▷ Figures are regrouped / reclassified to make them comparable.
- ▷ 'Analytical data' are best estimates to facilitate understanding of business and NOT meant to reconcile reported figures.
- ▷ Answers will be given only to non-price sensitive questions.
- ▷ This presentation is for information purpose only and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any securities of PFC. Any action taken by you on the basis of the information contained in the presentation is your responsibility alone and PFC or its directors or employees will not be liable in any manner for the consequence of such actions taken by you.